

Ref: SEC/SE/2019-20 Date: May 21, 2019

Scrip Symbol: NSE – DABUR, BSE Scrip Code: 500096

To,

Corporate Relation Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001 National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

Sub: Publication of Notice for the attention of Equity Shareholders of the Company regarding the transfer of the Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir(s),

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulation, 2015), please find enclosed herewith copy of notice published in Financial Express and Jansatta both dated 21st May, 2019 for the attention of Equity Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, in accordance with Section 124 (6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit Transfer and Refund) Rules, 2016.

This is for information and records.

EVP (Finance) and Company Secretary

Thanking You,

Yours faithfully,

For Dabur India Limited

Encl: as above

SRM Energy

SRM ENERGY LIMITED

Regd. & Admin Office: Unit No. 206, 2nd

Floor, Suneja Tower-2, District Centre,

Janaknuri New Delhi-110058

CIN L17100DL1985PLC303047

Website: www.srmenergy.in

Tel. No. +91-011-40234327

Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation

29 of the Securities and Exchange Board of India

Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015, a meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be held

on Tuesday, May 28, 2019 at 11:00 A.M.at Unit

No. 206, 2nd Floor, Suneja Tower-II, Janakpuri

District Center, New Delhi- 110058 to inter-alia

The Standalone & Consolidated Audited

Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2019 along with the

Audited Financial Statements (Standalone &

Consolidated) of the Company for the

To transact any other business which the

This information is also available on the website

of the company viz. www.srmenergy.in and the

website of the Stock Exchanges where the

Company's shares are listed viz. BSE Limited

Jeevandhara Multitrade Limited

Formerly known as Amulya General Trading &

Agencies Ltd)
04, Floor-2, 174, Bharucha Building,

Shamaldas Gandhi Marg, Lohar Chawl,

Kalbadevi, Mumbai-400002

Email id: roc.amulyageneral@gmail.com

Website: www.jeevandharamultitrade.in

CIN: L52511MH1984PLC274890

Notice

NOTICE is hereby given in terms of Regulations

29 read with regulation 47 of the SEBI (LODR)

Regulations, 2015 that a Meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to be

held on Tuesday, 28th May, 2019 at 11.00 a.m

at its Registered Office to consider, approve and

take on record, inter alia, the Audited

FinancialResults of the Company for the quarter

and year ended on 31st March, 2019 and any

other matter with permission of the Chairperson

The said intimation is also available on Company's

For and on behalf of

For SRM Energy Limited

(Suvindra Kumar)

ACS: 22747

Company Secretary

onsider the followings:

Financial Year 2018-19.

Board may deem fit.

www.bseindia.com).

Place: New Delhi

Date: May 20, 2019

SLESHA COMMERCIAL LIMITED (Formerly known as Shivam Techno Projects Limited) CIN: L74140MH1985PLC266173 Regd. Off.: Room No. 18, Kailash Darshan Hansoti Lane, Cama Lane, Ghatkopar Mumbai Mumbai City MH 400086 IN Email: roc.shivamtechno@gmail.com

Website: www.shivamtechno.in NOTICE

NOTICE is hereby given in terms of Regulation. 29 read with regulation 47 of the SEBI (LODR)
Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 28th May, 2019 at 01.00 p.m at its Registered Office to consider, approve and take on record, inter alia, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2019 and any othe matter with permission of the Chairperson.

The said intimation is also available on Company's website www.shivamtechno.in and may also be available on MSFI

Date: 20.05.2019

AICICI

PRLDENTIAL

MUTUAL FUND

Mutual Fund (the Fund)

above remain unchanged.

Place: Mumbai

Date: May 20, 2019

No. 014/05/2019

For Slesha Commercial Limited Kalpak Ajay Vora Place: Mumbai Director

DIN: 01556520

SAMYAK CORPORATION LIMITED (Formerly known as Green Commercial

Limited) CIN: L51219MH1985PLC265766 Regd. Off.: Room No. 18, Kailash Darshan Hansoti Lane, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400086

Email: roc.greencommercial@gmail.com Website: www.greencommercial.in

NOTICE

NOTICE is hereby given in terms of Regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (LODR)
Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 28th May, 2019 at 03.00 p.m. at its Registered Office to consider, approve and take on record, inter alia, the Audited Financials Results of the Company for the guarter and year ended on 31st March, 2019 and any other matter with permission of the Chairperson.

The said intimation is also available on Company's website www.greencommercial.in and may also be available on MSEL

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruamc.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway,

Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID), Key

Information Memorandum (KIM) of ICICI Prudential Liquid Fund (the Scheme)

and Statement of Additional Information (SAI) of the schemes of ICICI Prudential

Investors may please note that with respect to deployment of unclaimed redemption

and dividend amounts under separate plans of the Scheme, investment of the valid/

clear unclaimed amount will be generally be made within 105 days of the due date.

All the other provisions of the SID/KIM/SAI except as specifically modified herein

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM/SAI of

CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others: 1800 200 6666 • Or, apply online at www.icicipruamc.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile

number with us to support paper-less communications.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all

scheme related documents carefully.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

The above change shall be effective with immediate effect.

ICICI Prudential Mutual Fund, as amended from time to time.

For Samyak Corporation Limited Kalpak Ajay Vora

Director

DIN: 01556520

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Place: Mumbai Date: 20.05.2019 SPACEAGE PRODUCTS LIMITED Read, Off.: B-702, Neelkanth Business park Near Vidyavihar Bus Stop, Vidyavihar(W), Mumbai-400086

Email id: roc.spaceage@gmail.com Website: www.spaceageproducts.co.in CIN: L34300MH1980PLC267131

Notice

NOTICE is hereby given in terms of Regulation: 29 read with regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 29th May, 2019 at 02.00 p.m. at its Registered Office to consider, approve and take on record, inter alia, the Audited FinancialsResults of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2019 and any other matter with permission of the

The said intimation is also available on Company's website www.spaceageproducts.co.in and may also be available on BSE website www.bseindia.com

> For and on behalf of Spaceage Products Limited

Bhavesh Prabhudas Vora Place: Mumbai DIN: 06814823 Date: 20.05.2019

SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LIMITED Read, Office: 209/210, Arcadia Building

Place: Mumbai

Date: 20.05.2019

KD LEISURES LIMITED

& Trading Limited)

Office No. B-702, 7th Floor, Neelkanth

Vidyavihar (West) Mumbai-400086

Email id: roc.viatl@gmail.com

CIN: L55100MH1981PLC272664

Notice

gulations, 2015 that a Meeting of Board of

pirectors of the Company is scheduled to be held

on Wednesday, 29th May, 2019 at 12,00 p.m. at

take on record, inter alia, the Audited

FinancialsResults of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2019 and any

other matter with permission of the Chairperso

The said intimation is also available on Company's

website www.kdgroup.co.in and may also be

For KD Leisures Limited

AJAY KANTILAL VORA

DIN: 06864950

available on BSE website www.bseindia.com

Registered Office to consider, approve and

Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400021 Telephone: 40198600, Fax: 40198650, Website: www.saraswaticommercial.com, Email id: saraswati.investor@gcvl.in, CIN: L51909MH1983PLC166605

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to egulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) degulations, 2015 a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 29th May, 2019 at 3.00 M. interalia to consider and approve the udited Financial Results for the quarter and year ended on 29th May, 2019.

urther, the Trading Window for dealing in he securities of the Company has been kept closed for all Directors, designated persons and their immediate relatives of the Company from 4th April, 2019 till 48 hours after the Audited Financial Results the Company for the quarter/ year nding on 31st March, 2019 are approved by the Board of Directors on 29th May, 2019. The Communication has been sent o the Directors, designated persons and heir immediate relatives of the Company. This information is also available on the website of the company at www.saraswaticommercial.com and on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com.

For Saraswati Commercial (India) Limited

Avani Sanghavi Place : Mumbai Company Secretary

Date: 20.05.2019 & Compliance Officer

BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED Regd. Off.: 7, Council House Street, Kolkata - 700 001 CIN: L67120WB1947PLC221402 Website: www.bengalassam.com Email: dswain@jkmail.com Fax: 033-22481641

lotice is hereby given that a meeting o he Board of Directors of the Company i scheduled to be held on Thursday 30th May, 2019 at New Delhi, inter alia to consider and approve the Audited Annual Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2019, including recommendation of Dividend, if any.

This information is also available on the website of the Company i.e www.bengalassam.com and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com where the Company's equity shares are

usiness Park, Kirol Village, Near Bus Depot,

VIVIMED LABS LIMITED

CIN: L02411KA1988PLC009465 Regd Office: Plot No.78/A, Kolhar Industrial Area, Bidar -585403, Karnataka. Ph: 0848-2332045

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & other regulations of the Securities and xchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the neeting of Board of Directors Company will be convened on Thursday May 30, 2019 at Hyderabad, inter alia, to consider and approve the judited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2019, and other items as per agenda.

For Vivimed Labs Limited

Place: Hyderabad Date : 17-05-2019

K. Yugandhar **Company Secretary**

DABUR INDIA LIMITED Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi -110 002 , Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051, CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com e-mail ID for investors: investors@mail.dabur

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF Authority)

tice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Compa , 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rule 16 ("The Rules") as notified from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The Rules, contains provide transfer of all equity shares in the Company to the Investor Education Protection Fund (IEPF Authority)in respec ich dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in the prescribed manner

nce, all underlying equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive year more from financial year 2011-12 Final Dividend are required to be transferred to IEPF Authority as per The Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to th concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for takin propriate action(s) and the names of such shareholders and their folio numbers or DP ID-Client ID are available ebsite of the Company at www.dabur.com

or claiming unpaid/unclaimed dividend, the concerned shareholders may contact Company's Registrar and Transfe gent at M/s Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District nakramguda, Hyderabad-500032, Telephone-040-67162222, email-id einward.ris@karvy.com.

Further, shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may pleas note that the Company would be issuing new share certificates in lieu of the original share certificates held by them for th urpose of conversion into demat form and subsequent transfer to demat accounts opened by IEPF Authority. Upon suc ssue, the original share certificates which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deeme n-negotiable. In case of shareholders holding shares in demat form, the transfer of shares to the demat accounts of the PF Authority as indicated hereinabove shall be effected by the Company through the respective Depositories by way of

case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 14, 2019 th Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the share of IEPF Authority.

areholders are requested to note that the updated list of shareholders uploaded on the Company's website should be garded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificates for the purpose ansfer of shares to Demat accounts of the IEPF Authority pursuant to the amended rules. areholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares along with dividend(s) from IEPF Auth

Place: New Delh

details of which is available at www.ieof.gov.in.

For Dabur India Limited Ashok Kumar Jain EVP - Finance & Company Secretary



Place: New Delhi

NBCC (INDIA) LIMITED (A Government of India Enterprise) CIN-L74899DL1960GOI003335

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi - 110003 Tel.: 011 - 24367314 - 18, 43591555 (EPABX); Fax: 91 - 11 - 24366995 E-mail: co.sectt@nbccindia.com; Website: www.nbccindia.com Notice of Board Meeting for consideration of Financial Statements and

recommendation of Dividend, if any

Notice be and is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, May 29, 2019 to inter-alia consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2019 and recommend the Final Dividend, if any, for the Financial Yea 2018-19 subject to the approval of Shareholders in the forthcoming Annual General Meeting Further, in terms of NBCC-Code of conduct to regulate, monitor, and report trading by insiders, the Trading Window for transactions in the shares of the Company which was closed from April 4, 2019 shall remain closed until May 31, 2019 for all the Designated/Connected Persons including their dependents and immediate Relative(s)

The notice is also available on the website of the Stock Exchanges & NBCC at www.bseindia.com: www.nseindia.com.and.www.nbccindia.com

For NBCC (India) Limited

Sd/-Deepti Gambhir

KOTIA ENTERPRISES LIMITED (Formerly Known as International Pump and

Projects Limited)
CIN: L74110DL1980PLC010678 Regd. Off.: 905, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Tel:- 91-11 -40045955

Website: www.kotiaenterprises.com NOTICE OF BOARD MEETING

rursuant to Regulation 29(1) (a) & 47(1) (a) & 33 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of M/s Kotia Enterprises Limited (Formerly Known as "International Pumps and Projects Limited") will e held on Monday, 27th May, 2019 at registered office of the Company to consider and approve Standalone Audited Financial Results for the Quarter/ Financial Year ended March, 31, 2019.

ursuant to SEBI (Prohibition of insider Trading) egulations, 2015, for trading in Securities of the Company, the trading window for dealing in securities of the Company by insiders has been closed with effect from 21st May, 2019 and remain closed till 29th May, 2019.

As required in terms of Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this notice is also available on Website of the Company

For Kotia Enterprises Limited (Formerly Known as International Pump and Projects Limited)

Place: New Delhi Date: 20.05.2019

Ankit Agarwal Managing Director DIN: 05254327

ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED Registered Office: "Ananta Bhawan".

94 Vivekanand Nagar ear West Bank Hospital, P.O – Podrah, Roos No. 303, 3rd Floor, Howrah - 711109 Phone: +91-82320 13440
Email Id:info@anubhavinfrastructure.com

Website:www.anubhavinfrastructure.com Notice of Board Meeting

rsuant to Regulation 29 read with Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India isting Obligations and Disclosure equirements) Regulations, 2015 (Listing ulations). Notice is hereby given that the eting of the Board of Directors of the Compan scheduled to be held on Wednesday, May29 019 at 2:00 P.M interalia, to consider an approve the audited financial results of the Company for the fourthquarterand year ender

The said Notice may be accessed on the Company's website a http://www.anubhavinfrastructure.com and ma also be accessed on the Stock Exchange websites at http://www.bseindia.com Pursuant to this, the Company has decided tha the close period (i.e.closure of trading window under the "Code of Internal Procedures an Conduct for Regulating, Monitoring and Reportin of Trading by Insiders" would commence from 6:00 p.m. on May 20, 2019 and end 48 hour after the results are made public on May 29, 201

By order of the Board For Anubhav Infrastructure Limited

Place: Howrah Date: 20.05.2019

Neha Kedi Company Secretary Jeevandhara Multitrade Limited Kalpak Ajay Vora

website www.ieevandharamultitrade.in.

Date: 22.05.2019

Place: Mumbai DIN: 01556520

WINRO COMMERCIAL (INDIA) LIMITED Read, Office: 209-210, Arcadia Building,

Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400021 Telephone: 40198600, Fax: 40198650, Website: www.winrocommercial.com Email id: winro.investor@gcvl.in,

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Company Secretary | Obligations and Disclosure Requirements)

SILVERPOINT INFRATECH LIMITED Registered Office: "Ananta Bhawan" Vivekanand Nagar Near West Bank Hospita P.O - Podrah, Room No. 301, 3rd Floor, Howrah -711109 Phone: +91-82320 62881 Email Id:info@silverpointinfratech.com Website:www.silverpointinfratech.com

Notice of Board Meeting Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India

IKAB SECURITIES AND INVESTMENT LIMITED CIN No: L17100MH1991PLC059848

Regd. Office: Raja Bahadur Compound, Bldg. No. 5, 43 Tamarind Lane, Mumbai - 400 001 Tel.No: 022-40463500 Website: www.ikabsecurities.com Email: info@ikabsecurities.com

Extract of the Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31.03.2019 STANDALONE RESULTS : (Rs. In Lacs except EPS)

Quarter Ended Year Ended 31-Mar-19 31-Mar-18 31-Dec-18 31-Mar-19 31-Mar-18 Particulars (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)

Vivimed NOTICE is hereby given in terms of Regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (LODR)

भारत ने किलोग्राम, केल्विन, मोल व एंपीयर के लिए अपनाए नए मानक RELAXO

नई दिल्ली, 20 मई। भारत ने सात आधार इकाइयों में से चार-किलोग्राम, केल्विन, मोल और एंपीयर- को फिर से परिभाषित करने के वैश्विक प्रस्ताव को सोमवार को स्वीकार कर लिया। इस कदम के पाठ्यपुस्तकों में बदलाव समेत दूरगामी प्रभाव होंगे। पेरिस में पिछले साल 16 नवंबर को हुए अंतरराष्ट्रीय बाट व माप ब्युरो की जनरल काँफ्रेंस ऑन वेटस एंड मेजर्स में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने सात आधार इकाइयों में से चार को फिर से परिभाषित करने के प्रस्ताव को पारित किया। (भाषा)



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

ई-प्रापण निविदा सूचना

आई.डी. नं. 2019 NDMC 172417 1

कार्य का नाम: 2018-19 के दौरान नदिनप क्षेत्र में सड़कों का एस/आर उ.शी: नदिनप क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एम.एस. रैलिंग का फैब्रिकेशन तथा फिक्सिंग। अनुमानित लागत: रु. 3,22,03,784/-

ई-प्रापण सॉल्युशन द्वारा निविदा जारी की तिथि: 17.5.2019

बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 27.5.2019 को 3.00 बजे अप. में सीई(सी-II) के चैम्बर. 16वाँ तल, कमरा नं. 1601, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली में।

ई-प्रापण सॉल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय: 7.6.2019 के 4 बजे

विस्तृत विवरणों के लिये साईट www.govtprocurement.delhi.gov.in देखें। टिप्पणीः नदिनप में ई-निविदा में भाग लेने के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई-निविदा प्रणाली में पंजीकरण अनिवार्य है।

हस्ता./- कार्यपालक अभियंता (बीएम-III)

(Liquidation Process) Regulations 2016.

case of any additional information warranting modification in their claim value(s) admitted, a separate application to modify the list of stakeholders shall be sent to the Adjudicating Authority as per regulation 31(3) of the Insolvency and Bankruptcy of Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 and the list shall be modified in the manner directed by the Adjudicating Authority.

> VINEET AGGARWAL Liquidator of Value Makers International Private Limited IBBI/IPA-001/IP-P00475/2017-18/10818 E-mail: vntg631@gmail.com

Date: 16.05.2019 Place: New Delhi



डाबर इंडिया लिमिटेड

शेयरधारकों के लिए सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और सरंक्षण कोष प्राधिकरण के पास कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण ह सूचनापत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानंकर्ता शिक्षा और सरक्षण कोष प्राधिव खाकंन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम 2018 (नियम) जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय अधिसचित किए गए हैं के अतंर्गत दिया जा रहा है। आईईपीएफ नियम 2016 में ऐसे सभी शेयरों जिनके संबंध में लग गत् सात वर्षी या उससे अधिक समय तक लागाश को अंदाराभी अथवा शैवस्थारकों हारा दावा नहीं किया गया हो. वं विनिधानकर्ता शिक्षा और संसंधण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल है अतः ऐसे सभी अंतर्निहित शेयरों को जिनके सम्बन्ध में गत सात वर्षों, वित्तीय वर्ष 2011-2012 से (अंतिम लाभांश) लाभां ्रका इस्त प्रमा जामामाच्य रायस्य का, फानक सम्बन्ध म गत् सात वया, ावताय वय 2011—2012 से (अंतिम लामांची) र की अदायगी / दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्त किया जाना है।

नियमों में स्थापित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरखारकों को व्यक्तिगत रूप से सूच दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाएगा। नियमों में लिखित उपयुक्त कार्य के अंतर्ग नियत शेयरखारकों का नाम, फोलियों नं/डीपीआईडी — ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट www.dabur.com प

अदत्त / अनिधयाचित लाभांश का दावा करने के लिए संबंधित शेयरधारक, कम्पनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, कार्य फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्यी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नं-31-32 गाछीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामग् हैदराबाद 50,0032, टेली न.-040-67162222, इंगेल-einward.is(g)karry/com से संचर्क कर सकते हैं। श्रेयरधारक कृष्या ध्यान दें कि गीतिक पदित में श्रेयर धारित करने वाले ऐसे श्रेयरधारक जिनके श्रेयरों को अंतरित वि

गएगा. यह ध्यान रखें कि कम्पनी डीमेट पद्दित में रूपातरण के उददेश्य से तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत खुले डीमेट जाएगा, यह ध्यान रखें कि कम्पनी डीनंट परिते ने रूपातरण के उद्दरय से तथा आइस्पाएक प्राधिकरण के तहत खुत डीनंट खाते में आगाणी स्थानंतरण के दिला उनके द्वारा खारित मूल बेयर प्रमाणपत्र (त्री) के दत्ते में गए शेयर प्रमाणपत्र करेगी। शेयर जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा इसे गैंग परकाम्य माना जाएगा। शेयरधारक जो डीनंट परिते में शेयर खारित करते हैं, उनके शेयरी का स्थानांतरण सर्विदित स्थितस्था के हाश कींपिट फ्रिक्या के माध्यम से आईस्पीएक प्राधिकरण के डीनट खाते में कम्पनी हास सम्मन्त किया जाएगा। यदि अगस्त 14, 2019 तक शेयरधारकों से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कोष प्रधिकरण (तेखांकन लेखापरीक्षा अतंरण और वापसी) नियमो के अनुसार उन शेयरथारकों के शेयर आईईपीफ प्राचिकरण को अंतरित कर दिरं जाएगें। जाएगें।

शेयरबारकों से अनुरोध है, कृष्या ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरबारकों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गा है, उसे कम्पनी द्वारा नए प्रमाणपत्र निर्ममन जिनका अंतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में किए जाना है, उसवे संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

संबंधित शेयरधारक कृष्या ध्यान दें कि अंतरित शेयरों और लाभांशों को आईईपीएफ प्रधिकरण से पुनःदावा करके प्रा किया जा सकता है, जिनका विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। कृते डाबर इंडिया लिमिटेड

दिनांक: मर्ड 16, 2019

ए. के. जैन ई.वी.पी.(फाईनेन्स) एवं कम्पनी सचिव

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

CIN No.- L74899DL1984PLC019097 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootw

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES
RNE0000419	Pawan Kumar Dhingra	100043	82086-86085	4000	1
RNE0000419	Pawan Kumar Dhingra	103215	60064306-60068305	4000	1
RNE0000524	Hemant Dhingra	100040	76086 -78085	2000	1

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Karvy Fintech Private Limited, Company's Registrar and Shan Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Hyderabad - 500032 or with the Company at its registered office a Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For Relaxo Footwears Limited

Place: Delhi Date: 20th May, 2019

Vikas Kumar Tak Company Secretary जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एन: L14106UP1995PLC019017 पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर -128, नोएडा-201304, उ.प्र दुरमाब :+91(120) 4609000, 2470800 फैक्स :+91(120)4609464, 4609496 दिल्ली कार्यालय : 'जेए', हाउस, 63,बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

दुरमाशः +91(11) 49828500 वेबसाइट : www.jalindia.com ई मेल : jal.investor@jalindia.co.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताऐं और प्रकटीकरणं) विनियम, 2015 के विनियम 47 को विनियम 29 के साथ पढते हुये, के संदर्भ में एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 28 मई, 2019 को, अन्य विषयो सहित, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए कंपनी के तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित एकल एवं संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकार करने हेतु होनी निर्धारित हुई है।

अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानि www.jalindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 20 मई, 2019

एम. एम. सिब्बल संयुक्त अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव सदस्यता क्रमांक एफसीएस-3538 सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch Office: Jhadina.

कब्जा नोटिस 8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.01.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता ऊषा पत्नि सत्यपाल और श्री सत्यपाल और गारंटर श्री जगत सिंह खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू-100110 /- (रूपये एक लाख एक सौ दस केवल) अदा करने की तिथि सस पर ब्याज दिनांक 01.01.2019 तक अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14 मई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, झडीना शाखा को देय धनराशि रू.-100110/— (रूपये एक लाख एक सौ दस केवल) अदा करने की तिथि तथा उस पर ब्याज दिनांक 01 01 2019 तक अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

एक प्लॉट जिसकी माप 96 स्क्वेयर यार्ड गांव लोधीपुर छपका, परगना और तहसील गढ़, हापुड़ मालिक ऊषा देवी।

चौहद्दी: - उत्तर: विक्रेता राचरण सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: विद्या की सम्पत्ति, पूर्व: रास्ता 10 फिट, पश्चिम : धुम सिंह की सम्पत्ति।

दिनांक: 14.05.2019

प्राधिकृत अधिकारी सिंडिकेट बैंक अंचल कार्यालय

कार्यालय वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-।, दिल्ली

उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उदघोषणा में चुक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

8.1 आरक्षित मृत्य रु. 1325 लाख (रु. तेरह करोड पच्चीस लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी और धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 132 लाख (रु. एक करोड़ बलीस लाख मान्।

8.2 इच्छुक निविदादाताओं को रु. 132 लाख (रु. एक करोड बत्तीस लाख मात्र), घरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी—।।, डी आर टी— |, दिल्ली, खाता आर सी नं. 325/16 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 08.07.2019 को सार्य 05.00 बजे तक घरोहर राशि वसूली अधिकारी— | |, डी आर टी— |, दिल्ली के ऑफिस में जमा करनी होगी | उसके उपरान्त प्राप्त घरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नहीं होगी | सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी बरोहर राशि (ई एम डी) ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी--।।, डी आर टी--।, दिल्ली के ऑफिस से वापस कर दी जाएगी।

8.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) साथ में दस्तावेज जैसे की पैन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि दिनांक 08.07.2019 को सायं 05.00 से पहले वसूली अधिकारी- | |, डी आर टी- |, दिल्ली के ऑफिस में जमा कर दी है, ही दिनांक 10.07.2019 को अपींह 03.00 बजे से अर्पाह 04.00 बजे तक होने वाली ई—नीलामी में भाग ले सकते है। बोली यदि ई—नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई—नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगी।

8.4 निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 1,00,000 / -- (रु. एक लाख केवल) निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

8.5 किसी भी लॉट के सर्वोच्च / उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

8.6 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी—।, ऋण वसुली अधिकरण—।, दिल्ली, खाता आर सी न 325 / 16 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के मीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्द कर ली जाऐगी।

8.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-।।, डी आर टी-।, दिल्ली, खाता आर सी न.** 325 / 16 के पक्ष में बैंक झापट / पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिकी की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी— I, डी आर टी— I, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के प्रश्चात) ऐसा किया जाएंगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण- ।, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।

8.8 यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद बची रकम यदि अबोहस्ताक्षरी इसे सड़ी समझता है, तो सरकार के खाते में जब्दा कर दी जायेगी तथा दौषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है. के दावे जब्दा कर लिए जायेंगें।

9. सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा

10. अद्योहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सम्पत्तियों की अनुसूची क्र. अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची

क्र. सं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्मित का विवरण, जहीं सम्बन्धित सम्मित ढिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित में हैं।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	का विवरण जिसके लिए	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आग आगा है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	बी-115, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- ।, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1236.43 वर्ग गज, लीज सम्पत्ति बिना अवधि के पट्टे पर है। चौहद्दी: उत्तर में - 80' चौडी रोड, पूरब में - प्लॉट नं. बी-114, दक्षिण में - सर्विस लेन, पश्चिम में - प्लॉट नं. बी-118	कोई सूचना प्राप्त नहीं		

मेरे समक्ष दिनांक 06.05.2019 को मोहर किया गया

हस्ता /- (जितेन्द्र कुमार), वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।, दिल्ली

एसपीए कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड CIN No. 1.65910DI 1984PI C018749 सेन्टर, जनकपरी, नई दिल्ली-110058 नाम"

(भारत सरकारं का उद्यम) सीआईएन-L74899DL1960GOI003335

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

जगत सिंह लोघीपुर छपका, गढ़, हापुड़ - 245205.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना (1) हमने, आपके अनुरोध पर, कर्जदार / रों को कुल योग राशि रू. 1,50,000 /— हेतु क्रेडिट लिमिट्स मंजूर की हैं तथा हम हमारे द्वारा प्रदान की गई विभिन्न क्रेडिट सर्विधाओं का पूर्ण विवरण यहां नीचे दे रहे हैं :

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार/ खाता संख्या	Limit/Loan Amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.)	एन पी ए तारीख
1	87837730000040	1,50,000	1,00,110	30.06.2018
	Total	1 50 000	1 00 110	

(2) चूंकि आपने देय राशिया चुकाने में चुक की है, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपका खाता को अनार्जक आस्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

(३) ऋण दस्तावेज की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान में लगातार चुक के दृष्टिगत, पूरी राशि देय हो चुकी है। अतः अब रू. 1,00,110 (रू. एक लाख एक सौ दस मात्र) की राशि दिनांक 01-01-2019 से ब्याज और लागतों इत्यादि सहित बकाया है।

(4) हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमारी पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु बारम्बार सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधो के बावजूद, आपने अभी तक उसका भूगतान नहीं किया है।

(5) आपको विदित है कि हमारे द्वारा मंजूर की गई लिमिट द्वारा स्वाधिकृत निम्नलिखित आस्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) द्वारा प्रत्यामृत है। एक प्लॉट जिसकी माप 96 स्क्वेयर यार्ड गांव लोघीपुर छपका, परगना और तहसील गढ़, हापुड़ मालिक ऊषा देवी।

चौहद्दी :- उत्तर : विक्रेता राचरण सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण : विद्या की सम्पत्ति, पूर्व : रास्ता 10 फिट, पश्चिम : धूम सिंह की सम्पत्ति । (६) उपरिवर्णित कारणों के आधार पर, इम एतदहारा आपसे इमारी पूरी बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, हम उपरिवर्णित प्रत्यामृत आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अधीन हमको प्राप्त शक्तियों में अन्य के साथ

(प) कर्जदार की प्रत्याभुत आस्ति का कब्जा प्राप्त करना. जिसमें प्रत्याभुत आस्ति के नकदीकरण हेतु पटटा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण, (पप) व्यवसाय का प्रबंधन अधिप्रहीत करना, जिसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण का अधिकार तथा प्रत्यामृत ऋण की वस्ती शामिल है तथा हमारे द्वारा किए गए प्रत्याभूत आस्ति के अंतरण से अंतरित प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में सभी अधिकार अंतरिती को इस प्रकार प्रकार प्राप्त हो जाएंगे जैसाकि आपके द्वारा किए गए अंतरण से प्राप्त होते।

(7) उपरिवर्णित शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम उन सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों हेतू प्रयुक्त की जाएगी, जो कानून की दृष्टि में हमारे द्वारा समुचित उपगत किए गए हैं अथवा उनके अनुषगी हैं और द्वितीयतः हमारी उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली तक संविदात्मक दर पर ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त की जाएगी, तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, आपको अदा कर दी जाएगी।

(a) क्पया नोट करें कि इस सुचना की प्राप्ति के बाद, आप इस सुचना में संदर्भित किसी भी प्रत्या<u>भृत</u> आस्ति का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण, बैंक (प्रत्यामूत लेनदार) की लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध

(9) आपका का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

(10) कृपया यह भी नोट करें कि यह सूचना पूरी बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली, उसकी वसूली की तिथि तक देय ब्याज एवं लागतों के साथ करने के लिए आपके विरूद्ध डीआरटी / सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ करने के बैंक के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं

दिनांक- 20.05.2019

स्थान-नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी

TV TODAY NETWORK I IMITED

नियवितयां